

प्रेस विज्ञप्ति

### जामिया शिक्षक संघ ने शिक्षक दिवस पर सेवानिवृत्त व विशिष्ट शिक्षकों को किया सम्मानित

जामिया शिक्षक संघ (जेटीए) ने शिक्षक दिवस पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों के सम्मान में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें सेवानिवृत्त शिक्षकों को स्मृति चिन्ह और शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस वर्ष शिक्षक दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ नहीं मनाया गया जा सका क्योंकि जामिया ने कोविड-19 महामारी के कारण कई शिक्षकों को खो दिया है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर रहीं और विशिष्ट अतिथि मानू, हैदराबाद के पूर्व कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद मियां रहे।

जेटीए के अध्यक्ष प्रो. माजिद जमील ने कहा कि शिक्षकों के अनमोल जीवन का नुकसान राष्ट्रीय संपत्ति और समाज का नुकसान है और जेटीए इस पर सभी शिक्षकों को श्रद्धांजलि देते हुए याद करता है। कुलपति ने दिवंगत शिक्षकों के परिवार के सदस्यों को एक प्रशस्ति पत्र और शॉल भेंट किया।

कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर ने दिवंगत शिक्षकों को श्रद्धांजलि दी और सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया। प्रो. अख्तर ने उल्लेख किया कि वर्तमान महामारी के दौरान शिक्षकों की कड़ी मेहनत एवं उनके निस्वार्थ प्रयासों के कारण विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई।

प्रोफेसर मोहम्मद मियां ने भी उन शिक्षकों को श्रद्धांजलि दी जो अब उनके बीच नहीं रहे। उन्होंने शिक्षकों से समाज के जरूरतमंद और निचले तबके को शिक्षित करने के लिए अपनी पहुंच के आयामों का और विस्तार करने को कहा। उन्होंने बताया कि कैसे भारत को पढ़ाने के लिए गांधी जी और मुस्लिम बुद्धिजीवियों के मार्गदर्शन में काम करने वाले संस्थापकों और शिक्षकों के निस्वार्थ प्रयासों से जामिया को आकार मिला।

शिक्षक दिवस शिक्षण के जुनून और शिक्षा प्रदान करने के महान पेशे का जश्न मनाने का अवसर है। शिक्षक न केवल शिक्षण का कार्य करते हैं, बल्कि विश्वविद्यालय के अनुसंधान और विस्तार कार्य को चलाने की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रोफेसर नफीस अहमद ने कहा कि शिक्षक अनदेखे की खोज करता है और सत्य की तलाश करता है और यह आत्म-प्रेरणा राष्ट्र-निर्माण और मानवता को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में उत्प्रेरक है।

जेटीए के सचिव डॉ. मोहम्मद इरफान कुरैशी ने कहा कि "यह शिक्षक दिवस कई मायनों में अलग है; हमने हाल ही में वैश्विक महामारी के कारण अपने कुछ अनमोल सहयोगियों और अद्भुत शिक्षकों को खो दिया है। जेटीए निःस्वार्थ भाव से संस्थान के लिए अतिरिक्त कर्तव्यों का विस्तार और प्रदर्शन करने के अलावा, शिक्षण और अनुसंधान के महान पेशे के प्रति उनके योगदान की सराहना करता है। हम उनको सम्मान के यह प्रतीक भेंट करके उनकी सेवाओं का सम्मान करते हैं।

इसके अलावा, सेवानिवृत्त शिक्षकों के सम्मान में एक समारोह आयोजित करने की वार्षिक प्रथा के अनुसार, जेटीए ने शिक्षक दिवस पर स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट करके प्रेम और सम्मान के माध्यम से सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया। हाल ही में सेवानिवृत्त शिक्षकों ने जामिया से अपनी अकादमिक यात्रा और अपनेपन की यादें और अनुभव साझा किए जो युवा शिक्षकों को उनके करियर और विश्वविद्यालय को संचालित करने में मार्गदर्शन करेंगे।

एक नई शुरुआत करते हुए, जेटीए उन सहयोगियों को सम्मानित करना शुरू कर रहा है, जिन्हें हाल के दिनों में अकादमिक, अनुसंधान और प्रशासन में उनके उत्कृष्ट योगदान और प्रयासों के लिए अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है।

सूची: शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के सम्मान में (05 सितंबर, 2021)

*श्रद्धांजलि (मरणोपरांत)*

प्रोफेसर मोहम्मद रफत  
प्रोफेसर शफीक ए अंसारी  
प्रोफेसर रिज़वान कैसर  
प्रोफेसर कडलूर सावित्री  
डॉ अभय कुमार शांडिल्य  
डॉ. नबीला सादिक

*सेवानिवृत्त शिक्षक (पिछले 2 वर्ष; वर्णानुक्रम में)*

प्रोफेसर अब्दुर रशीद  
प्रोफेसर अहरार हुसैन  
प्रोफेसर अली मोहम्मद  
प्रोफेसर अनीता शर्मा  
प्रोफेसर अताउर रहमान खान  
प्रोफेसर एजाज हुसैन  
प्रोफेसर फुरकान अहमद  
प्रोफेसर गयासुर रहमान सैयद  
प्रोफेसर हामिद एहसान अख्तर  
प्रोफेसर इलियास हुसैन  
प्रोफेसर इंतेज़ार खान  
प्रोफेसर इराक रजा जैदी  
प्रोफेसर जानकी राजन  
प्रोफेसर मेहताब मंज़र  
प्रोफेसर मोहम्मद इश्तियाक  
प्रोफेसर मोहम्मद इस्लाम  
प्रोफेसर मोहम्मद कामिल  
प्रोफेसर मोहम्मद मजाहिर अली खान  
प्रोफेसर मोहम्मद रफत  
प्रोफेसर मोहम्मद समी  
प्रोफेसर मोहम्मद याकूब शरीफ  
प्रोफेसर मुअज्जम जहां नबी खान  
प्रोफेसर एन यू खान  
प्रोफेसर इस्लाम नवाज़  
प्रोफेसर राबिया अहमद  
प्रोफेसर रुमकी बसु  
प्रोफेसर एस एम खालिद अली हमीदी  
प्रोफेसर एस ए एम पाशा  
प्रोफेसर साजिद ज़हीर अमानी  
प्रोफेसर सरिता कोहली  
प्रोफेसर सतीश कुमार भाटी  
प्रोफेसर महेंद्र पाल शर्मा  
प्रोफेसर शहनाज परवीन  
प्रोफेसर शेर अली  
प्रोफेसर सैयद मोहम्मद अख्तर  
प्रोफेसर सैयदा अजरा खुर्शीद  
प्रोफेसर वहाजुद्दीन अहमद अल्वी

वर्तमान के विशिष्ट अचीवर  
प्रोफेसर रुमकी बसु  
प्रोफेसर इमरान अली  
प्रोफेसर रिहान खान सूरी  
प्रोफेसर जाहिद अशरफ

जनसंपर्क अधिकारी  
जामिया मिल्लिया इस्लामिया